



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2012/पौष 23, 1933

No. 56]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2012/PAUSA 23, 1933

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2012

का.आ. 65(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई व भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2750(अ), तारीख 3 नवम्बर, 2011 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (ii) तारीख 9 नवम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी और उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का, महागट्ट राज्य के थाने जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् वर्स्टन डडीकटड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन, अनुगमन, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्र, अर्थात् द टाइम्स ऑफ इण्डिया, तारीख 14 जनवरी, 2011 और लोकमत, तारीख 14 जनवरी 2011 में प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वाक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विन्योगों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप में निर्मित हो जाएगी।

## अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा कॉरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके बिना मंजूर विवरण।

जिले का नाम : थाने

तालुक का नाम : पालघर

ग्राम का नाम : नेवाले

क्रम संख्या	सर्वे नंबर		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भू स्वामी/हितवध व्यक्ति का नाम
	पुराना	नया				
1	2(अ)	3(ब)	3	4	5	6
1	18 पार्ट	60 पार्ट	खेतजमीन	निजी	0.2200	चिनामन गाविट चुवळे, हरीशचंद लखमा सौरा, वागक्या बेड्या ताडेल, मथी माधव कुवर, जमन माधव कुवर, वनशा माधव कुवर, गिगीजा वधु सुतार, दयकी वच्चु सुतार, गणपत गोपाल काटया, वट्ट गाद्या मुना मुतार, नरेश गोंदा सुतार, सखू गाद्या सुतार, कुन्दा चिनामन कोरडा, कृष्ण लहान्य कोरडा, कृष्ण त्रिवक सुतार, द्वारकी शिवाजी घोषा, संतोष शिवाजी घोषा, सुनिल शिवाजी घोषा, गणपत शिवाजी घोषा, मनुना किसन घोषा, भाऊ किसन घोषा, गीता किमन वापा, अविनाश किसन घोषा, लाडू दशरथ घोषा, अनिका दशरथ घोषा, अनिकेत दशरथ घोषा, नमुदा नरेश धागडा, श्रवती लडका धायाड, अनला लडका धायाड, रामू लडका धायाड, रसुला मोरेश्वर दलवी
2	22 पार्ट	62 पार्ट	खेतजमीन	निजी	0.2660	हरीचंद हाल्या पाटारा, गंगुवाड लक्ष्मन हाडळ, रामा वड्या दुमाडा, गोदीवाई कापट्या बारगा, काकडा सिवर बारगा, वावल्या गोपाल गोरखनाथ, नामू धाकट्या पन्हाड, जिवी शिंदवा ताडेल, गंगू रघु गोरखनाथ, शाकू गणपत गोरखनाथ
3	38 पार्ट	72 पार्ट	खेतजमीन	निजी	0.1500	शरद सखाराम राऊत, वसंत सखाराम कदम, उर्मिला वसंत कदम
4	36 पार्ट	78 पार्ट	खेतजमीन	निजी	0.4433	राजेंद्र लक्ष्मण चुरी
5	26 पार्ट	66 पार्ट	खेतजमीन	निजी	0.0280	मणिया मुकला धोडी, यशवंत भिका धोडी, वावू लाडक्या गवळी, विनायक देण्या शनवार, बुध्या काण्या रसाळ, वावू गाविट ताडेल, मालती सखाराम गवळी, राजन सखाराम गवळी, संगिता सखाराम गवळी, लक्ष्मण हिण्या गहला, रमा रामचंद्र शेलका, अरूण रामचंद्र शेलका, नरेश रामचंद्र शेलका, जयमाला जयवंत भोईर, संजना सुदाम शिंदे, प्रणिता मणिण हाडळ
6	29 पार्ट	69 पार्ट	खेतजमीन	निजी	0.1280	मपन एकनाथ मनाडिक, हामी खुदाद मुराद इराणी, दिवेदी लक्ष्मी शकर, शिवनाथ प्रसाद

1	2(अ)	3(ब)	3	4	5	6
7	30 पार्ट	70 पार्ट	खेतजमीन	निजी	0.1110	मंगळ्या धर्मी वारगा, दामा शिराड कडू, नारायण विठ्ठल मुतांग, कल्पना किशोर संखे, रचना उमेश भय, योचना किशोर संखे, दत्त फशा शेलका, मंगळ्या गोविंद मानवे, माधव रूपजी दुभाडा, यशवंत धर्मी वारगा, लक्ष्मण रडका दुवळा, सुरेश रडका दुवळा, प्रकाश रडका दुवळा, राधा रडका दुवळा, जयराव वारक्य गिंभळ
8	21 पार्ट	64 पार्ट	खेतजमीन	निजी	0.0090	खंडग कृष्ण वारगा, गोविंद वालया शेलका, प्रकाश नथू धाडी जगदिश नथू धाडी, लता संभाजी बसावे, मानता किशोर धाडी, कुटा चंद्र धाडी, मुरेश नथू धाडी, मिता नथू धाडी, गंगाबाई नथू धाडी कृष्ण रडका धाडी, शानागम बुधार्जा धाडी, दामू धर्मो धिडा
9	25 पार्ट	65 पार्ट	खेतजमीन	निजी	0.1490	अविनाश रुधिराथ गावंड, शशांक रमेश ठाकूर, संजय रमेश ठाकूर, रंजनी रमेश ठाकूर, मणिता विनोद मोरे, कल्पना कमलाकर ठाकूर, गिरीजा कमलाकर ठाकूर, अनिल कमलाकर ठाकूर, कनन कमलाकर ठाकूर, निता आनंद ठाकूर, शकुंतला न. लखन ठाकूर, प्रकाश यशवंत ठाकूर, रखा यशवंत ठाकूर
10	31 पार्ट	71 पार्ट	खेतजमीन	निजी	0.1670	बापू नाम्या वाघात, देवजी रूपजी लहांगे, बाळू दामू मेरे, यशवंत वारक्या गिंभळ, सुरेश नथू पाटकर, दिलीप नथू पाटकर, कमली नथू पाटकर, रतू नथू पाटकर, गणू नथू पाटकर, प्रविण हरी वाघान, भाला हरी वाघात, मोरू दामू भोईर, रडका दामा घाटाळ, हेमंत चंद्र मेर
11	37 पार्ट	74 पार्ट	खेतजमीन	निजी	0.0780	श्रीमती पावती महादेव राजत, जगन्नाथ दत्तात्रेय देशपांडे, मालती मधू वेढर, हेमा हरी वाघात, गिरीजा, यशवदी तामनू गोवारी

[फा. सं. 2010/एलएमएल/12/4-वेस्टर्न कॉर्गिडार]

ओ. पी. सिंह, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाए-1)

## MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2012

**S.O. 65(E).**—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 2750 (E), dated the 3<sup>rd</sup> November 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9<sup>th</sup> November, 2010 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Thane in the State of Maharashtra.

And, whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, The Times of India, dated the 14<sup>th</sup> January, 2011 and Lokmat, dated the 14<sup>th</sup> January, 2011 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, no objection has been received by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

### SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the State of Maharashtra.**

Name of District : Thane

Name of Taluk : Palghar

Name of Village : Nevale

Sr. No.	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area in Hectares	Name of Land Owners/Intrested persons
	Old	New				
(1)	2(a)	2(b)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	18 Part	60 Part	Agricultural	Private	0.2200	Chintaman Govind Chumbale, Harishchandra Lakhma Saura, Barkya Bendya Tandel, Mathi Madhav Kuvar, Jaman Madhav Kuvar, Vansha Madhav Kuvar, Girja Bandhu Sutar, Devki Bajju Sutar, Ganpat Gopal Kathya, Chandu Gondya Sutar, Naresh Gondya Sutar, Saru Gondya Sutar, Kunda Chintaman Korda, Krushna Lahanya Korda, Krushna Trimbak Sutar, Dwarki Shivaji Ghosha, Santosh Shivaji Ghosha, Sunil Shivaji Ghosha, Ganpat Shivaji Ghosha, Manjula Kisan Ghosha, Bhau Kisan Ghosha, Gita Kisan Ghosha, Avinash Kisan Ghosha, Ladu Dashrath Ghosha, Antika Dashrath Ghosha, Aniket Dashrath Ghosha, Namuda Naresh Ghangda, Shevanti Ladka Dhayad, Anata Ladka Dhayad, Ramu Ladka Dhayad, Rasula Moreswar Dalvi
2.	22 Part	62 Part	Agricultural	Private	0.2660	Harishchandra Halya Patara, Sakhubai Laxman Hadal, Rama Bendya Dumda, Godibai Kakdya Barga, Kakda Sivar Barga, Bablya Gopal Gorakhnath, Namu Dhaktya Parhad, Jivi Shidva Tandel, Gagu Raghu Gorakhnath, Shaku Ganpat Gorakhnath

(1)	2(a)	2(b)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	38 Part	72 Part	Agricultural	Private	0.1500	Sharad Sakharam Raut, Vasant Sakharam Kadam, Urmila Vasant Kadam
4.	36 Part	78 Part	Agricultural	Private	0.4433	Rajendra Laxman Churi
5.	26 Part	66 Part	Agricultural	Private	0.0280	Maniya Sukla Dhodi, Yashwant Bhika Dhodi, Babu Ladkya Gavli, Vinayak Denya Shanvar, Budhya Kanya Rasal, Babu Govind Tandel, Malti Sakharam Gavli, Rajan Sakharam Gavli, Sangita Sakharam Gavli, Laxman Hirya Gahla, Rama Ramchandra Shelka, Arun Ramchandra Shelka, Naresh Ramchandra Shelka, Jaymala Jayvant Bhoir, Sanjana Sudam Shinde, Pranita Pravin Hadal
6	29 Part	69 Part	Agricultural	Private	0.1280	Sampat Eknath Mahadik, Homi Khudad Murad Irani, Dwivedi Laxmi Shankar, Shivanth Pasad
7	30 Part	70 Part	Agricultural	Private	0.1110	Mangalya Dharmi Barga, Rama Shirad Kadu, Narayan Vitthal Sutar, Kalpana Kishor Sankhe, Rachana Umesh Sankhe, Yojana Kishor Sankhe, Darshana Kishor Sankhe, Dattu Parsha Shelka, Mangalya Govind Mandave, Madhav. Rupji Dumada, Yashwant Dharmi Barga, Laxman Radka Dubla, Suresh Radka Dubla, Prakash Radka Dubla, Radha Radka Dubla, Jayram Barkya Gimbhal
8.	21 Part	64 Part	Agricultural	Private	0.0090	Khanderav Krushna Barga, Govind Balya Shelka, Prakash Nathu Dhodi, Jagdish Nathu Dhodi, Lata Sambhaji Vasave, Malti Kishor Dhodi, Kunda Chandu Dhodi, Sunita Nathu Dhodi, Sita Nathu Dhodi, Gangabai Nathu Dhodi, Chhagan Ladka Dhodi, Shantaram Budhaji Dhodi, Damu Dharmi Dhinda
9.	25 Part	65 Part	Agricultural	Private	0.1490	Avinash Kashinath Gavad, Shashak Ramesh Thakur, Sanjay Ramesh Thakur, Ranjani Ramesh Thakur, Sangita Vinod More, Kalpana Kamalakar Thakur, Nilesh Kamalakar Thakur, Anil Kamalakar Thakur, Ketan Kamalakar Thakur, Nita Anand Thakur, Shakuntala Yashwant Thakur, Prakash Yashwant Thakur, Rekha Yashwant Thakur
10.	31 Part	71 Part	Agricultural	Private	0.1670	Bapu Namya Waghata, Devji Rupji Lahange, Balu Damu Mere, Yashwant Barkya Gimbhal, Suresh Nathu Patkar, Dillip Nathu Patkar, Kamli Nathu Patkar, Sanju Nathu Patkar, Gangu Nathu Patkar, Pravin Hari Waghata, Bhaulesh Hari Waghata, Moru Damu Bhoir, Radka Dama Ghatal, Hemant Chandu Mere
11.	37 Part	74 Part	Agricultural	Private	0.0780	Parvati Mahadev Raut, Jagannath Dattatreya Deshpande, Malti Madhu Bendar, Hema Hari Waghata, Girija, Yashwadi Tamnu Govari

[F. No. 2010/LML/12/4-Western Corridor]

O.P. SINGH, Executive Director (Land and Amenities-1)

102 GI/2012-2